



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

19 पौष 1936 (श0)
(सं0 पटना 168) पटना, शुक्रवार, 9 जनवरी 2015

बिहार विधान-सभा सचिवालय

अधिसूचना

6 फरवरी 2014

सं0 वि०सं०(का०)-01/2014-298/वि०सं०।—सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह प्रकाशित किया जाता है कि पंचदश बिहार विधान-सभा के निर्वाचन क्षेत्र संख्या-145, साहेबपुर कमाल से निर्वाचित सदस्या श्रीमती परवीन अमानुल्लाह द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 190(3)(ख) एवं बिहार विधान-सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-65 के अधीन दिनांक 05.02.2014 को सदन से अपने स्थान का त्याग करने का अपने अभिप्राय की सूचना दी गई है, जिसे माननीय अध्यक्ष, बिहार विधान-सभा द्वारा स्वीकार किये जाने के फलस्वरूप निर्वाचन क्षेत्र संख्या-145, साहेबपुर कमाल दिनांक 05.02.2014 से रिक्त हो गया है।

तदनुसार बिहार विधान-सभा के माननीय सदस्यों की सूची को इस हद तक संशोधित समझा जाय।

माननीय अध्यक्ष, बिहार विधान-सभा के आदेश से,

फूल झा,

प्रभारी सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 168-571+20-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>